



Pregnancy Help Australia Limited

तथ्य पत्र

आपके द्वारा गर्भपात कराने से पहले पूछे जाने वाले सवाल

पूरी जानकारी पढ़ने और अपने सभी विकल्पों को समझने के बाद यदि आपने गर्भपात करवाने का निर्णय ले लिया है, तो इस प्रक्रिया में स्वयं को नियंत्रण करने के लिए सक्षम महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है।

कुछ सवाल जो आप खुद से पूछ सकती हैं...

- क्या यह मेरा निर्णय है या मैं किसी व्यक्ति या परिस्थिति के दबाव में हूँ?
- क्या मैंने सभी अन्य विकल्पों को समझ लिया है जिसमें गोद देना या अपने बच्चे का पालन-पोषण करना शामिल है?
- क्या मैंने इस बात पर विचार कर लिया है कि यह निर्णय भविष्य में 1 माह में, 9 माह में और आज से कई वर्षों बाद मेरे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा।
- यदि इस गर्भपात के बाद मैं भविष्य में गर्भधारण नहीं कर पाती हूँ तो मुझे कैसा महसूस होगा?

क्या आपने हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध सभी तथ्य पत्र देख लिए हैं?

- यदि आप गर्भवती हैं
- विकल्प वर्कशीट
- गर्भपात संबंधी तथ्य
- भ्रूण विकास
- गोद लेना।

अपना एपॉइंटमेंट बुक करने से पहले अपने गर्भपात प्रदाता से पूछे जाने वाले कुछ सवाल

- उस चिकित्सक का क्या नाम है जो मेरा गर्भपात करेगा?
- यदि समस्याएं पैदा होती हैं तो क्या चिकित्सक के पास मुझे स्थानीय अस्पताल में दाखिल करने के अधिकार हैं?
- क्या आप स्वतंत्र परामर्श प्रदान करते हैं ताकि मैं अपने विकल्पों की चर्चा कर सकूँ?
- क्या इस परामर्श में पैसा लगता है? यदि हां तो कितना?
- क्या परामर्श लेने से पहले मुझे एडवांस में पैसा देना होगा? यदि हां तो कितना?
- क्या किसी भी समय मैं अपना मन बदल सकती हूँ और भुगतान किए गए पूरे पैसे वापिस ले सकती हूँ?
- क्या आप अल्ट्रासाउंड करेंगे?
- क्या इसके लिए अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा?
- यदि मैं चाहूँ तो क्या मैं अल्ट्रासाउंड को देख सकती हूँ?
- क्या आप आप गर्भपात के बाद होने वाले शारीरिक या भावनात्मक प्रभावों के बारे में लिखित जानकारी देंगे?
- यदि मेरा गर्भपात किया जाता है तो क्या आप पहले मेरे STIs की जांच करेंगे?

यदि आप इनमें से किसी जवाब से परेशान हैं तो आपको एपॉइंटमेंट बुक करने की आवश्यकता नहीं है।

अपने विकल्पों की चर्चा करने के लिए अपने सबसे नजदीकी गर्भावस्था सहायता सेवा के विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.pregnancysupport.com.au देखें। आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपकी सहायता के लिए यहाँ मौजूद हैं।

गर्भावस्था सहायता सेवाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए यदि आप Qld, NSW, Victoria or the ACT से फोन कर रही हैं, तो 1300 792 798 पर फोन करें यदि आप SA, WA, Tasmania या NT से फोन कर रही हैं, तो 1300 655 156 पर फोन करें

गर्भावस्था सहायता ऑस्ट्रेलिया
www.pregnancysupport.com.au